

स्थाई और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी: प्राचार्य

स्थानीय एसएन सिन्हा कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एसएस कॉलेज जहानाबाद के शिक्षक एवं कर्मी भी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य प्रो. उमाशंकर सिंह, डॉ. गिरिराज शर्मा, डॉ. अख्तर रोमानी, डॉ. शालिनी, डॉ. सिम्मी, नीलम कुमारी, प्रीति कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में प्राचार्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस- 2022 की थीम 'जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो' है। इस थीम का अर्थ है कि एक स्थाई और समान कल के लिए समाज में लैंगिक समानता जरूरी है। महिला दिवस का इतिहास एक सदी से भी पुराना है। पहली बार वर्ष 1911 में मनाया गया था।

कार्यक्रम में उपस्थित समूह को सम्बोधित करते हुए दर्शनशास्त्र की अध्यक्ष डॉ. शालिनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में महिलाओं को सशक्त करना और उनकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना है।

उर्दू विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. सिम्मी ने बताया कि आज भी कई देशों में लैंगिक समानता को लेकर काफी मतभेद है कई देशों में आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए गए हैं ऐसे में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य दुनिया भर में लैंगिक समानता का संदेश फैलाना है।

नीलम कुमारी ने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को चिन्हित करना और एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करना है जो सभी लैंगिक पूर्वाग्रह रूढ़ियों, लैंगिक असमानता और भेदभाव से मुक्त हो।

मंच का संचालन डॉ. सिम्मी एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ. गिरिराज शर्मा ने किया। इस अवसर पर एसएस कॉलेज के विनोद कुमार राय, प्रवीण दीपक, नीरज कुमार सहित डॉ. बबलू कुमार, शशिधर गुप्ता, अर्चना कुमारी, डॉ. राजकुमार मिश्र, पंकज कुमार सिंह, विजय कुमार, देवब्रत, राजेश सिन्हा, संतोष कुमार पाठक, शशिभूषण कुमार, रासनारायन भगत, मो. मिन्हाजुद्दीन अहमद, मो. अनवर हुसैन, राजीव नयन, विकाश कुमार, प्रहलाद चंद्र मिश्र, सुनील कुमार मेहता, मो. शमीम, संटू कुमार, बिट्टू कुमार, आजाद कुमार,

एनएसएस के स्वयंसेवक सुरजीत कुमार, सपना प्रिया, ईशा सिंह, मदीहा रिजवान, नेहा कुमारी, संजीव कुमार, आफशा परवीन, श्रुति पांडेय, रागिनी सिंह सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही।

